


<div> इंडियन ओवरसीज बैंक</div> <div>ग्लोबल लिमिस्ड शाखा, 70, ग्लोबल लिमिस्ड, नई दिल्ली-110003, सम्पर्क नं.: ०11-24652039, ०11-24601621, ई-मेल: iob2006@iob.in</div>	
चल सम्पत्तियों की विपरी के लिये नीतिमा की लिये सार्वजनिक सूचना वितीय परिस्तरमितियों के प्रतिप्रतिकरण एवं पुनर्मिनिता तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के सं. 54) के अंतर्गत बैंक के पास अधिपति चल सम्पत्ति (नौ) की विपरी <p>जैसा कि इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित आगे के व्याज तथा लाभानों के साथ बैंक के बकाये की वसूली के लिये “जैसा है जहां है आधार” जवा “जो भी वहां है आधार” पर उसकी विपरी करने के अधिकार के खास निम्नलिखित रूप खाता में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निम्नमावली, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी की गई सूचना के अनुपालन में निम्न परिस्तरमितियों का कब्जा कर लिया है तथा जैसा कि बकाये के भुगतान में उनकी विलंबता के उपरांत उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में प्रतिभूत परिस्तरमितियों की विपरी द्वारा बैंक के बकाये की वसूली का प्रस्ताव करते हैं।</p>	
खाता का नाम	श्री इमरान अहमद
पंजीकृत की तिथि	01.07.2015
मौल सूचना तिथि	6.10.2015
कब्जा की तिथि (पंचनामा एवं इन्वेन्टरी)	4.2.2017
बकाया राशि	23.7.2018 को रु. 3,29,116.00 तथा सांख्यिक तथा विधिन सखें
सांख्यिक बकाया देयता	झारू नुत
नीतिमा की तिथि	27.8.2018 को 10.00 बजे पूर्व. से 5.00 बजे अप. तक
पूरा सम्पति का निरीक्षण	20.8.2018 को 10.00 बजे पूर्व. से 5.00 बजे अप. तक
ईंग्लिश के साथ सभी जमा करना भुक्त होने की तिथि	23.7.2018 को 10 बजे पूर्व. से
कोती जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	26.8.2018 के 5.00 बजे अप. तक
चल सम्पत्तियों का विवरण	
प्राप्त का नाम	: टाटा पत्र (एलस्टीडी)
पंजी. सं.	: DLIL15196, निर्माण वर्ष: 2012
आवृत्ति मूल्य	: रु. 50,000.00 (सपने प्रमाण हप्ता मात्र)
नीतिमा की तिथि, समय	: 27.8.2018 को 10 बजे पूर्व. से 5.00 बजे अप.
नीतिमा का स्थान	: इंडियन ओवरसीज बैंक, ग्लोबल लिमिस्ड शाखा, # 70 ग्लोबल लिमिस्ड, नई दिल्ली-110003
वित्तन के निरीक्षण का स्थान	: इंडियन ओवरसीज बैंक, अंशतः कार्यलय, रचना बिल्डिंग, गार्डन प्लेस, नई दिल्ली-110008
ईंग्लिश	: रु. 5,000.00 (सपने पत्र हप्ता मात्र)
*आम सांख्यिक देयताएं/एट्रिब्यूट नदि कोई हो: अन्य सांख्यिक बकायों पर बैंक के बकाये को प्राथमिकता दी जायेगी।	
निर्णयों एवं शर्तों के लिये कृपया देखें: https://www.iob.in/ tender.aspx, https://www.publishtenders.gov.in	
तिथि: 23.7.2018, स्थान: दिल्ली	प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक

पहली कंप्यूटर आधारित रेलवे परीक्षा नौ अगस्त को

नई दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा)।

रेलवे ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा की दिशा में आगे बढ़ते हुए पहली कड़ी के तौर पर सहायक लोको पायलटों और तकनीशियनों की 26,502 रिक्त पदों के लिए परीक्षा की तारीख नौ अगस्त घोषित की है। करीब 47.56 आवेदकों ने इन नौकरियों के लिए आवेदन दिया है।

रेलवे ने कहा कि वह कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पहले चरण के तौर पर 26 जुलाई को मॉक लिंक (परीक्षा का छद्म अभ्यास) सक्रिय करेगा और उम्मीदवार परीक्षा से चार दिन पहले भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से ई-कॉल लेटर

केंद्रीय बलों में होंगी 54 हजार भर्तियां

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

सरकार ने सीआरपीएफ, बीएसएफ और आइटीबीपी जैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों में इस साल 54 हजार से अधिक जवानों की भर्ती का फैसला किया है। यह केंद्रीय सुरक्षा बलों में बड़े भर्ती अभियानों में से एक है। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने 54,953 पदों के लिए विज्ञापन दिया है। इसमें सबसे अधिक 21,566 पद सबसे बड़े अर्द्धसैनिक बल सीआरपीएफ के लिए हैं।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत तिब्बत सीमा

डाउनलोड कर सकेंगे।

रेलवे की नोटिस में कहा गया है कि उम्मीदवार परीक्षा केंद्र (शहर), दिन, सत्र जानने, यात्रा दस्तावेज (बस अनुसूचित जाति / जनजाति उम्मीदवार) और ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आरआरबी की अधिकृत वेबसाइटों पर प्रदत्त लिंक के माध्यम से उपरोक्त तारीखों पर लॉगइन कर सकता है।’

नोटिस के अनुसार सामान्य उम्मीदवारों के लिए एक घंटे की और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 80 मिनट की परीक्षा होगी। प्रश्नपत्र में 75 बहुविकल्प प्रश्न होंगे और हर गलत उत्तर पर 1/3 नकारात्मक अंक होंगे।

पुलिस (आइटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), असम राइफल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और सचिवालय सुरक्षा बल के लि्फ कास्टेबल (सामान्य इयूटी) पद के लिए भर्ती होंगी। इसमें से 47,307 पद पुरुषों और 7,646 पद महिलाओं के लिए हैं।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, केंद्रीय बल नई बटालियनं गठित कर विस्तार की तैयारी में हैं, जिन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और केंद्रीय पुलिस संगठन (सीपीओ) कहा जाता है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी के बाद इन नए पदों का विज्ञापन दिया गया है।

चोटी नहीं बनाने पर ‘चांटा मारने वाली शिक्षिका निलंबित

हैदराबाद, 22 जुलाई (भाषा)।

एक निजी स्कूल में कक्षा चार की नौ साल की छात्रा को चोटी नहीं बनाने पर कथित रूप से चांटा मारने वाली शिक्षिका को शनिवार को निलंबित कर दिया गया।

स्कूल प्रशासन ने बताया कि हमें इस घटना पर अफसोस है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे स्कूल में यह घटना हुई। अभिभावकों की शिकायत के बाद विज्ञान शिक्षका को निलंबित कर दिया गया। छात्रा की मां ने आरोप लगाया था कि 19 जुलाई को चोटी नहीं कर स्कूल आने पर विज्ञान की शिक्षिका ने उनकी बेटी को ‘चांटा’ मारा था लड़की की मां ने नारायणगौड़ा थाने में शिकायत दी थी।

MARKTESH TRADING LIMITE Regd. Office: 612, Devika Tower, 6th floor, 6, Nehru Place, New Delhi-110019 CIN : L51909DL2005PLC135119 E-mail : shrinishrastraada@gmail.com TelfFax: +91-11-26219944	
NOTICE Notice is hereby given that Pursuant to Clause 41 of the Listing Agreement, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday the 13 th August, 2018 at 4.30 p.m. at its Registered Office to consider and take on record Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30 th June, 2018.	
For Marktेश Trading Ltd. A. Bajaria Director	
Place : New Delhi Date : 23.07.2018	

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement.)	
	
SALEBHAI INTERNET LIMITED	
Corporate Identification Number: U51101GJ2015PLC082801	
Our Company was originally incorporated as "Salebhai Internet Private Limited" on April 06, 2015 under the Companies Act, 2013 vide certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad, Gujarat vide CIN No. U51101GJ2015PTC082801. Subsequently, pursuant to shareholders resolution passed in the Extra-ordinary General Meeting held on February 01, 2018 our Company was converted into a public company and consequently name was changed to "Salebhai Internet Limited" vide fresh certificate of incorporation dated February 12, 2018 issued by Registrar of Companies, Ahmedabad, Gujarat. For details of the changes in our name and registered office, please refer to the chapter titled " <i>History and Corporate Structure</i> " beginning on page no. 137 of the Prospectus.	
Registered Office: 307-A, C/o Safal Pegashis, Opp. Kiran Motors, 100H Road, Opp: Rivera Bungalows, Prahalad Nagar, Vejalpur, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Tel No.: 079-48999917 E-mail: compliance@salebhai.com Website: www.salebhai.com Contact Person: Ms. Chitra Thakar (Company Secretary & Compliance officer)	
THE ISSUE	
PUBLIC ISSUE OF 22,59,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF SALEBHAI INTERNET LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUE") FOR CASH AT A PRICE ₹ 105 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 95 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 2372.58 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 1,16,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH FOR A CASH PRICE OF ₹ 105 PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 122.22 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 21,43,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 105 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 2250.36 LAKHS (IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.58% AND 25.21%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 219 OF THE PROSPECTUS.	
THIS ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER XB OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2009 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS"), AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 43(4) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2009, AS AMENDED. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "ISSUE PROCEDURE" BEGINNING ON PAGE 229 OF THE PROSPECTUS.	
THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹ 105	
THE ISSUE PRICE IS 10.5 TIMES OF THE FACE VALUE.	
ISSUE OPENS ON FRIDAY, JULY 27, 2018 CLOS ES ON THURSDAY, AUGUST 02, 2018	
ASBA *	Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it !!!
In terms of SEBI Circular No. CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015, all potential Investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details about the bank account which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same. For further details, please refer to section titled "Issue Procedure" beginning on page no. 229 of the Prospectus.	
PROMOTERS: Mr. Vishwavijay Singh, Mr. Anandprakash Varani and Mrs. Purba Kalita	
PROPOSED LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of Bombay Stock Exchange. In terms of the Chapter XB of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended, our Company has received an in-principle approval letter dated June 22, 2018 from BSE Ltd. for using its name in this offer document for listing of our shares on the SME Platform of BSE Ltd. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the Bombay Stock Exchange (BSE Ltd.).	
DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter XB of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Draft Offer Document was not filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" on page 205 of the Prospectus.	
DISCLAIMER CLAUSE OF SME PLATFORM OF BSE LTD. (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): understood that the permission given by BSE Ltd. should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by BSE Ltd. nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the "Disclaimer Clause of SME PLATFORM OF BSE LTD." on page 208 of the Prospectus.	
IPO GRADING: Since the issue is being made in terms of Chapter XB of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.	
ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF COMPANIES ACT, 2013	
MAIN OBJECTS AS PER MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY	
To carry on the business to online web based marketing, exporter, importer, traders, buyers, sellers, merchant, agents, dealers, distributors, commission agents, auctioner, online traders, brokers, stockiest, factors, consignors, collaborators, franchisers, concessionaire, consultant, advisors, manufacturer's representative and other wise to deal in all kinds, classes, size, nature and description of Industrial, Commercial, Consumer, Capital Goods, Item, Things, Articles, Commodities, Merchandise, Products weather finished, semi-finished or raw material including Engineering Goods, Equipments, Apertures, Home-Appliances, Household, Automobiles, Electrical and electronic goods, Computer Hardware, Software, software, networking, M. T. I. T. Enabled services; E Mail, E Commerce, Mobile Computing, Mobile E - Mail Services, Web Designing, Web hosting, Website Analytics, Pay per click search advertising, Search engine optimisation, Digital Strategy, call centres, medical transcription, WAP and to undertake the turnkey projects for the same.	
AMOUNT OF SHARE CAPITAL AND CAPITAL STRUCTURE: Authorized Share Capital of ₹ 9,00,00,000 divided into 90,00,000 equity shares of ₹ 10 each. Subscribed and Paid-up capital prior to the issue is ₹ 6,24,15,100 divided into 62,41,510 equity shares of ₹ 10 each. Proposed Post-Issue share capital: ₹ 8,50,11,100 divided into 85,01,110 equity shares of ₹ 10 each.	
LIABILITY OF MEMBERS: The liability of members is limited upto the extent of shares allotted to them.	
NAMES OF THE SIGNATORIES OF MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND NUMBER OF SHARES SUBSCRIBED BY THEM ARE (1) Mr. Vishwavijay Singh – 5000 Equity Shares (2) Mr. Anandprakash Varani – 1400 Equity Shares (3) Ms. Prajawala Pramod Rao-500 Equity Shares (4) Mr. Gopal Shivji Shukla-1600 Equity Shares (5) Ms. Priyanka Vishwavijay Singh-1500 Shares	
LEAD MANAGERS TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
 MONARCH NETWORK CAPITAL LIMITED, (Earlier known as Networth Stock Broking Limited) MONARCH HOUSE, Opp. Ishwar Bhawan, Commerce Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad- 380014, India. Tel: (+91) 79-26665500, 66000500 Email: shyam.patel@mncgroup.com Investor Grievance Email: mdb@mncgroup.com Website: www.mncgroup.com Contact Person: Mr. Shivam Patel SEBI Registration No.: MB / INM000011013	 SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 44A, Gundecha Onclave, Khirani Road, Sakinaka, Mumbai – 400072. Tel. No.: +91-22-28511022 / 62215779 E-mail: viren@skylinertna.com Investor grievance email: grievances@skylinertna.com Website: www.skylinertna.com Contact Person: Virender Rana / Subhash Dhingreja SEBI Registration No.: INE000003241
COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER	
Ms. Chitra Thakar SALEBHAI INTERNET LIMITED 307-A, C/O SafalPegashis, Opp. Kiran Motors, 100ft Road, Opp: Rivera Bungalows, Prahalad Nagar, Vejalpur Ahmedabad, Gujarat – 380015, India. Tel: +079-48999917 E-mail: compliance@salebhai.com Website: www.salebhai.com Investors can contact the Company Secretary and Compliance officer or the Registrar in case of any Pre-issue or Post-issue related problems such as non-recceipt of letters of allocation, credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, etc.	
For SALEBHAI INTERNET LIMITED On behalf of the Board of Directors Sd/- Mr. Vishwavijay Singh Managing Director & CEO	
Place : Ahmedabad Date : July 21, 2018	

SALEBHAI INTERNET LIMITED is proposing, subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Ahmedabad. The Prospectus is available on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com, the website of the Lead Manager at www.mncgroup.com and the website of the Company at www.salebhai.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 19 of the Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities law in United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

(Rak)

अगले चुनाव में कांग्रेस को खारिज कर देगी जनता : भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 जुलाई।

भाजपा ने रिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष किया कि भले ही वे जबरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लंगें लेकिन अगले साल लोकसभा चुनाव में देश की जनता उन्हें गले नहीं लगाएगी। कांग्रेस कार्यसमिति में गांधी द्वारा दिए गए भाषण को लेकर उन पर प्रहार करते हुए भाजपा के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा कि लोग अगले आम चुनाव में उन्हें खारिज कर देंगे।

अपने ट्वीट में उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने

लोकसभा चुनाव में केवल 150 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है जबकि गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया- सुना है कि हताशा और निराशा में डूबी कांग्रेस ने अपनी बैठक में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखा है जबकि कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नरेंद्र मोदी पर हमला किए जाने पर बलूनी ने कहा कि सिंह की सरकार का लक्ष्य भ्रष्टाचार बढ़ाना था लेकिन वर्तमान राजा सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है।

<div> भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई</div> <div>साम्प्रती प्रबंधन प्रभाग</div>	
विज्ञापन सख्या डी- १५/टीए-१५	
निविदा सूचना	
क्र.सं. अद्योलिखित के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित हैं:-	तथ तिथि
१. कस्टमर वितरियण और फ्रेट फोरवर्डिंग एजेंट के लिए वार्षिक दर अनुबंध निविदा सं. : MMD/CUSTOM/RC/2018-19	२७/०८/२०१८
वितरण www.iitb.ac.in या www.iitb.ac.in/en/tenders पर उपलब्ध है। अन्य पूछताछ के लिए संपर्क करें : संयुक्त कुलसचिव (सा.प्र.) से दूरभाष नं. २५७६८८००, ई-मेल: drmm@iitb.ac.in	
दिनांक : २२ जुलाई, २०१८	संयुक्त कुलसचिव (सा.प्र.)

“प्रपत्र सं. आईएनसी-26” [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसारपर] के केंद्र सरकार के समक्ष उत्तरी क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम(5) के क्लॉज (क) के विषय में तथा


जीनस अपैरलस् लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-116, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में स्थित है, के विषय मेंयाचिकाद्वारा एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली” से “उत्तर प्रदेश राज्य” में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 19-07-2018 को आयोजित इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विषेश के आचार के निम्नानुसार को अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शायथत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिखता इन्टरनेट पर सूच्य कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, द्वितीय तल, बी-2 विंग, डा. दीनदारा अंबेडकर भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुच्य करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए: एच 1324 ओएसआईडीबी इंडस्ट्रियल एरिया, नरेला, नई दिल्ली-110040, आईएन

कुचे एवं हिरो बोर्ड डी-116, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 कुचे एवं हिरो बोर्ड जीनस अपैरलस् लिमिटेड हस्ता /- अभित अग्रवाल तिथि : 23-07-2018 निदेशक स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 00016133

<div> स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड</div> <div>नोटिस</div>	
सेवी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के निदेशक मण्डल के निदेशकों की एक बैठक नई दिल्ली में दिनांक 3 अगस्त, 2018 को अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के 30 जुन, 2018 को समाप्त तिमाही के अमर्रंजैकित वित्तीय परिणामों पर विचार करने, उनका अनुमोदन करने और उन्हें रिवाइज्ड करने के लिए आयोजित की जाएगी।	
यह भी सूचित किया जाता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की सिक्योरिटीज़ में डील करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तिओं हेतु ट्रेडिंग विंडी 26 जुलाई, 2018 से 5 अगस्त, 2018 (दोनों दिनों को ग्लिक्कर) तक बंद रहेगी।	
यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट http://www.sail.co.in और बीएसई लिमिटेड (http://www.bseindia.com) और नेसनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (http://www.nseindia.com) की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है।	
निदेशक मण्डल के आदेश से जारी कृते स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (हस्ताक्षर) (स्प.सी. नौन) नई दिल्ली कार्यपालक निदेशक (मित एवं लेखा) एवं सचिव	
पंजीकृत कार्यालय: इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 कॉर्पोरेट अकाउंटेंट नम्बर: U27109DL1973G000645, वेबसाइट- www.sail.co.in हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल	

दिनांक: 20 जुलाई, 2018
नई दिल्ली

<div> ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष</div> <div>4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001</div>	
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली), 1993 के नियम 12 धारा 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना और, नं. 68/2018 के मामले में बैंक ऑफ़ वडोहा बराम नं. राज ज्वैलर्स एवं अन्य प्रतिवादीगण	
डी-1 मै. राज ज्वैलर्स, द्वारा उसके प्रॉप. श्री अशोक कुमार वर्मा, 1157, शां पं. 4, 2रा तल, कृचा महानगर, चांदनी चौक, दिल्ली-110006	
डी-2 श्रीमती इन्दु वर्मा, पत्नी श्री अशोक कुमार वर्मा, निवासी एच.नं. 6, राजेन्द्रा पार्क एक्सटेंशन, नंगोली, दिल्ली-110041	

जैसा कि ऊपर नमित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह सिद्ध हो चुका है कि सामान्य तरीके से आपको सर्व करना संभव नहीं है। अतः विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्दिष्ट दिया जाता है कि 27.9.2018 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपरोक्त तिथि को आपके उपस्थित नहीं होने की स्थिति में मामले की सुनवाई एवं निष्पत्ती आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुरह लगाकर 27 जून, 2018 को दी गई।

हस्ता./-
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

 PTC India	PTC India Ltd. Regd. Office : 2nd Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066 (CIN : L40105DL1999PLC099328)
Tel: 011- 41659500, 41595100, 46484200, Fax: 011-41659144 E-mail: info@ptcindia.com , Website: www.ptcindia.com	
NOTICE	
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 7th day of August 2018 inter-alia, to consider and approve the un-audited financial results for the quarter ended June 30, 2018 amongst other items mentioned in the agenda.	
By order of the Board For PTC India Ltd.	
Sd/- (Rajiv Maheshwari) Company Secretary	
Place: New Delhi Date: 23/7/2018	FCS-4998
Note:- Further details on the matters above said may be accessed at the link of the Company's website http://www.ptcindia.com („Notice to Exchanges" in Statutory Information) and Stock Exchange website i.e.NSE: www.nseindia.com and BSE: www.bseindia.com .	